

Jamna Auto Industries Ltd.

August 28, 2021

To, To,

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Street, Mumbai- 400001 Maharashtra Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051, Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject: Newspaper Advertisement for holding Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement giving information about holding AGM through VC/OAVM, published in Business Standard (Chandigarh Edition) and Jansatta (Chandigarh Edition) dated August 28, 2021.

You are requested to take the same on records.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera Company Secretary& Head-Legal

Encl.: As Above

Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Tele: +91-11-26893331 | Fax: +91-11-26893180 | www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd Office: Jai Spring Road, Yamuna Nagar (Haryana)-135 001, India | Tel: +91-1732-251810 | Fax: +91-1732-251820

YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

Government of HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

E-Procurement Notice

INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, Chenab Valley Division HP, PWD, Udaipur on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the items rate bids in electronic tendering system, for construction of following work from the eligible and approved contractors/Firm registered with

IПP,	PWD.						
Sr.	Name of work	Name of	Estimated cost	Bid Security	Cost of	Period of	Eligible
No.		Division	of the Work	/EMD	Document	Completion	Class
1	Construction link road to village Jasrarh Km. 0/0 to 2/0 i/c 85.00 mtr. Span steel truss bridge over Chandra Bhaga river i/c approaches at RD.1/740.) (SH:- Retaining wall, Breast Wall, Cross Drainage, M/T and C/O Sub Structure, Super Structure including both side approaches) under NABARD RIDF-XXVI		10,63,19,913/-	2126500/-	5,000/-	Two years	Class 'A'
Sta	arting Date for downloading of Bid= 1.0	09.2021					
Deadline for submission of Bid = 07.09.2021 upto 5.0PM							

Bidders documents can be downloaded from the website http:/...hptenders.gov.in. The documents downloaded from the site should not be tempered, and if any such tempering is detected before or after the opening of bids, the bidder shall be penalized and black

Other terms and condition shall remain same as given in the bid document.

Physical submission of Documents = 07.09.2021 upto 5.00PM

Terms & Conditions:-

Scanned copy of Registration/Enlistment with H.P.P.W.D. Deptt., Scanned copy of PAN/TIN & Income Tax clearance certificate Scanned copy of work done certificate of similar nature of work for bridge components. Ownership of machinery required for above works such as, Road Roller, concrete mixer, Air Compressor, Tipper etc. Scanned copy of Earnest Money and Cost of Form. Scanned copy of Affidavit regarding genuineness and correctness of document attached

The bidders are advised to note other details of tenders from the departmental website www.hptenders.gov.in.

No.PW/CHV/CB/TA/2020-21- 6573-6672 Dated:- 26.08.2021

3683/2021-2022

On behalf of Governor of Himachal Pradesh

Chenab Valley Division, HP.PWD, Udaipur.

DIAGEO PIONEER DISTILLERIES LIMITED Corporate Identification Number: L24116KA1992PLC125992 Regd. Office: 'UB Tower', Level 10, #24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001.

Email: pdlinvestor.india@diageo.com Website: www.pioneerdistilleries.com BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENGALURU BENCH COMPANY APPLICATION (CAA) NO. 9 / BB/ 2021

Tel: +91 80 2221 0705; Fax: +91 80 3985 6862

IN THE MATTER OF SECTIONS 230 - 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION AND ARRANGEMENT AMONGST PIONEER DISTILLERIES LIMITED (APPLICANT NO. 1 / TRANSFEROR COMPANY) AND UNITED SPIRITS LIMITED (APPLICANT NO. 2 / TRANSFEREE COMPANY) AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

PIONEER DISTILLERIES LIMITED a company incorporated under the Companies

Act, 1956, having its registered office at 'UB Tower', Level 10, #24. Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001,

...APPLICANT NO. 1 / TRANSFEROR COMPANY

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE APPLICANT NO. 1/ TRANSFEROR COMPANY

Notice is hereby given that by the order dated February 8, 2021 in Company Application (CAA) No.9/BB/2021 read with order dated August 13, 2021 in C.Á. No. 58 of 2021 in Company Application (CAA) No.9 / BB / 2021, the Bengaluru Bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT") has directed a meeting to be held of the equity shareholders of the Applicant No. 1 / Transferor Company, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement, proposed in the matter of Scheme of Amalgamation and Arrangement amongst Pioneer Distilleries Limited and United Spirits Limited and their respective shareholders and creditors ("Scheme").

In pursuance of the said orders and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders of the Applicant No. 1 / Transferor Company will be held through video conferencing or other audio-visual means ("VC/ OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, following the operating procedures (with requisite modifications as may be required) referred to in General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"). The equity shareholders are requested to attend the meeting by VC/ OAVM, on such date and time as mentioned below.

Sr. No Class of Meeting		Date of Meeting	Time (IST)	
1	Equity Shareholders	September 30, 2021	03:00 p.m.	

The equity shareholders are requested to attend the meeting by logging in at www.evotingindia.com before commencement of the

Copies of the notice in relation to the meeting, together with the documents accompanying the same, including the explanatory statement and the Scheme can be obtained free of charge on any working day between 11:00 a.m. and 4:00 p.m. (IST) (except Saturday, Sunday and public holidays) from the registered office of the Applicant No. 1/Transferor Company at 'UB Tower', Level 10, #24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001, until the date of the meeting. The notice (including the detailed instructions for attending the meeting by VC/ OAVM) and the accompanying documents are also available on the website of the Transferor Company at www.pioneerdistilleries.com and on the websites of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com, and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

The equity shareholders of the Transferor Company are hereby informed and requested to note that:

- Since the meeting of the equity shareholders is being held by VC/OAVM, the facility to appoint proxy to vote on behalf of the equit shareholders is not available for this meeting. However, in terms of Section 112 and 113 of the Act, corporate members are entitled to appoint their authorised representatives to attend and cast their vote by electronic means.
- In compliance with the order dated February 8, 2021 read with order dated August 13, 2021, the Transferor Company has completed despatch of the notice of the meeting on August 27, 2021 by electronic mode to those equity shareholders who have registered their email address with the Depositories / the Depository participants (DP) / the Transferor Company / the Transferor Company's Registrars and Transfer Agents, Venture Capital and Corporate Investments Private Limited, and whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as per the details furnished by the Depositories as on August 23, 2021 being the 'cut-off date'
- In compliance with the provisions of Section 230(4) read with Sections 108 and 110 of the Act, read with the rules made thereunder and Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars, the Transferor Company has provided the facility of voting by postal ballot, remote e-voting and e-voting during the meeting. The voting period for postal ballot and remote e-voting shall commence on and from August 31, 2021, at 10.00 a.m. (IST) and end on September 29, 2021, at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting at 05:00 p.m. (IST), on September 29, 2021 and equity shareholders will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on the resolution is cast, the equity shareholders shall not be allowed to change it subsequently. Facility for e-voting shall also be made available during the meeting and equity shareholders attending the meeting through video conference, who have not already cast their vote by remote e-voting or postal ballot can exercise their vote during the meeting. The necessary instructions for attending the meeting, postal ballot, remote e-voting & e-voting during the meeting have been set out in the said notice dated August 25, 2021.
- Duly completed and signed postal ballot form should reach the scrutinizer on or before 5.00 p.m. on Wednesday, September 29, 2021. The postal ballot forms received after the said date and time shall not be considered and shall be taken as if the reply from the equity shareholder has not been received.
- The voting rights of the equity shareholders shall be in proportion to their shareholding in the Transferor Company as on August
- Equity shareholders are requested to immediately inform the Transferor Company's Registrars and Transfer Agents, Venture Capital and Corporate Investments Private Limited (VCCIPL), 12-10-167, Bharat Nagar, Hyderabad-500018 (Telephone No. 040-23818475, Fax No. 040-23868024) in case of shares held in physical form and to the respective depository participants, in case of shares held in dematerialized/electronic form, the details about their email addresses, if any, so that all notices and other statutory documents which are required to be sent to the shareholders, as per the provisions of the Act, can be sent to their email addresses
- Shareholders who have voted through postal ballot or remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote during the meeting.
- In accordance with the provisions of Sections 230 to 232 of the Act, the Scheme shall be acted upon only if majority in number representing three fourth in value of such equity shareholders of the Transferor Company, voting by postal ballot or remote e-voting or e-voting during the meeting, agree to the Scheme. Further in terms of the Circular dated March 10, 2017 bearing reference No. CFD/ DIL3/CIR/2017/21 issued by the Securities and Exchange Board of India, as amended from time to time, the Scheme shall be acted upon only if the votes cast by public shareholders in favour of the resolution set out above are more than the number of votes cast by the public shareholders against the resolution.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), $Mumbai-400\,013\,or\,by\,email\,to\,\underline{helpdesk.evoting@cdslindia.com}\,or\,call\,on\,022-23058542/43.$

The NCLT has appointed Mr. Girish Kumar, Advocate to be the Chairman of the meeting. The Scheme, if approved at the meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

As directed by the NCLT, Mr. Qaiser Magdum, Practicing Company Secretary (CP No. - 9043) has been appointed as scrutinizer to scrutinise votes cast either at the aforesaid meeting through e-voting or through remote e-voting or postal ballot.

The scrutinizer will submit the report on the votes cast to the Chairman of the meeting. The result of the voting shall be announced upon receipt of the scrutinizer's report and the same shall be placed on the Transferor Company's website www.pioneerdistilleries.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com within 48 hours of the conclusion of the meeting and shall be communicated to BSE and NSE, where the shares of the Transferor Company are listed.

Girish Kumar Date : August 27, 2021 Chairman appointed for the meeting Place : Bengaluru

Fullerton FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LIMITED Corporate Off: Supreme Business Park, Floors 5 & 6, B Wing, Powai, Mumbai 400 076

DEMAND NOTICE

Inder The Provisions of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of ecurity Interest Act, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules") Inder The Provisions of The Securitisation The undersigned being the authorized officer of **Fullerton India Credit Company Limited (FICCL)** under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The ontents of demand notice(s) are extracted herein below:

| Demand Notice Date | Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged Name of the Borrower(s) I) ANJALI PRINT ART PROPERTY ID NO.135C128U312 SITUATED 18/08/2021 AT 533/18,NEW TARA NAGAR SONIPAT TEHSIL SONIPAT HARYANA. HOUSE 2) RAJ KUMAR 3) JYOTI RANI Account No: 211021310652749 & 33,58,895/-MEASURING 100SQ. YDS.AND BOUNDED As on WITH DIMESSION AS UNDER :- EAST :-211021310748153 HOUSE OF SANT LAL WEST:- STREET NORT 04.08.2021 - HOUSE OF TRILOK SOUTH :- STREET

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the deman Ine borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that FICCL is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, FICCL shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. FICCL is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), FICCL also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the FICCL. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to FICCL under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(6) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of FICCL and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned on any working day during normal office hours. amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication

Sd/-, Authorised Office Fullerton India Credit Company Limited Date: 28.08.2021. Place: Sonipat (HARYANA)

⟨v)

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485 Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi -110070, India Telephone: +91 11 26893331. Fax: +91 11 26893180 Website: www.jaispring.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 55th Annual General Meeting (AGM) of the Member of Company will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 2.30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without physical presence of the members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act), and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Reguation, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular No.14/2020 (dated April 8,2020),17/2020(dated April 13,2020),20/2020 (dated May 5, 2020), 22/2020 (dated June 15, 2020) and 02/2021 dated January 13, 2021) respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars") and circular No. SEBI/HO/CFO/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Electronic copies of the Notice of AGM along with Annual Report for the financial year ended on March 31, 2021 shall be sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s) as on August 20, 2021. The same will also be available on the Company's website at www.jaispring.com and can also be accessed on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. The requirement of sending physical copies of Notice of AGM along with Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular and hence no physical copy of the same will be provided.

The Company has availed e-voting system of NSDL for providing remote e-voting acility ('remote e-voting') and facility of voting through e-voting system during the AGM (e-voting) to all its members. Detailed procedure for joining the AGM and remote evoting/e-voting is provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address/ mobile number /PAN Number/ Bank Mandate/ National Electronic Clearing Service (NECS) details with the Company, are requested to register/ update the same through a request letter along with self-attested copy of PAN, original cancelled cheque with preprinted name of the member and bank attested copy of passbook/statement showing name of the account holder to M/s. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153/A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi 110020; Email Id: grievances@skylinerta.com; or admin@skylinerta.com; or parveen@skylinerta.com; Ph. No. +91-11-40450193-97. Beneficial owners holding shares in electronic form are requested to register/ update their change in email address/ Mobile Number/ Bank Mandate/NECS details, if any, to their respective Depository Participants (DPs) in order to get the same registered

For Jamna Auto Industries Limited

Date-August 28, 2021 Praveen Lakhera Company Secretary & Legal Place-New Delhi

POSSESSION NOTICE (for immovable property)Rule 8-(1)

POSSESSION NOTICE (for immovable property) Rule 8-(1)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.)(IIHL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers /co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower In particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIHL HFL for a mount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIHL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be solid or transferred by "IIHL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. ansfer or sale of the secured assets.

Description of Secured Asset Total Outstanding Date of Name of the Borrower(s)
LUDHIANA Branch
Mr. Bhushan Kumar
Mrs. Dipti Vadhwa
(Prospect no 795118)

All that piece and parcel of Property - Jain Street,
Back Side Geeta Bhawan Mandir, Khojjian
Mohala, Kathera Chowk, Phagwara, 144401,
Punjab, India

Description of Secured Asset
(Immovable Property)
Dues (Rs.)

All that piece and parcel of Property - Jain Street,
Back Side Geeta Bhawan Mandir, Khojjian
Mohala, Kathera Chowk, Phagwara, 144401,
Punjab, India Notice 12-APRIL- 26-AUG-2021 Thousand Four Hundred Fifty One Only)

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office:-SCO 21, 5th Floor, ludhiana Ferozgandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141001, /Or Corporate Office: Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Place: LUDHIANA Date: 28-08-2021

Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

A Acrysil Limited

Regd. Office: B-307, Citipoint, Andheri Kurla Road, J B Nagar, Andheri (E) Mumbai 400059; Ph. No.: 022 4015 7817/18; Email id: cs.al@acrysil.com; Website: https://www.acrysilcorporateinfo.com; CIN: L26914MH1987PLC042283

NOTICE

The Thirty Fourth (34th) Annual General Meeting ("AGM") of Acrysil Limited ("the Company") will be held on September 22, 2021 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), in view of the COVID-19 pandemic, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular dated January 13, 2021 read with Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFO/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business as set out in the Notice of the 34th AGM.

The Notice of AGM together with the Annual Report 2020-2021 will be sent electronically to only those Members whose e-mail addresses are registered with the Company /Registrar and Transfer Agent. As per the above Circulars of MCA & SEBI, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered their e-mail addresses with the Company are requested to register their email addresses at cs.al@acrysil.com or with RTA by clicking the link https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx. They can obtain soft copies of the Notice of the 34th AGM, Annual Report and/or login details for joining the AGM through VC/OAVM, including remote e-voting during AGM, by sending scanned copy the following documents by email to the Company/RTA:

(a) a signed request letter mentioning your name, folio number, complete address, email

address to be registered;
(b) scanned copy of the share certificate (front and back);

c) self-attested scanned copy of PAN; and (d) self-attested scanned copy of Driving License/ Passport/ Bank Statement/ Aadhar, supporting the registered address of the Member.

Shareholders holding shares in demat form are requested to update their e-mail address with their respective DPs.

The Company has notified closure of Register of Members and Share Transfer Books from September 10, 2021 to September 14, 2021 (both days inclusive) for the purpose of

the Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing its nembers facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in

the AGM of the Company using an electronic voting system from a place other than venue of the Meeting (remote e-voting) along with option of voting at the AGM by evoting. The remote e-voting shall commence from on Sunday, September 19, 2021 from 09:00 a.m. to Tuesday, September 21, 2021 at 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall be allowed only upto the said date and time. Shareholders/Members whose names appear in Registrar of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. September 15,

2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the Meeting. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the Meeting. Any person, who becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 15, 2021 may obtain user id and password by sending a request at cs.al@acrysil.com If a person is already registered

with Bigshare Services Private Limited for e-voting the existing user id and password can be used for casting vote. In case of any query regarding e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542) or write an email to

nelpdesk.evoting@cdslindia.com

For Acrysil Limited Neha Podda Company Secretary

JANA SMALL FINANCE BANK (A scheduled commercial bank)

Date: August 27, 2021

Place: Mumbai

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No. 10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Regional Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging yo mmovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non-performing Asset, whereas Jana Small Finance Bani .imited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

Sr. No.	Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	No. & Loan Amount	Details of the Security to be enforced	& Demand Notice date	Amount Due in Rs. / as on
1	1) Mr. Bhag Singh, S/o. Mr. Surjit Singh, 2) Mrs. Harbans Kaur, 3) Mr. Gurmukh Singh, S/o. Mr. Bhag Singh	Loan Account No. 45859430000430& 45859430000472 Loan Amount: Rs.32,51,113/- & Rs.14,96,207/-		Date of NPA: 10.04.2021 Demand Notice Date: 20.07.2021	Rs.52,19,053/- (Rupees Fifty Two Lakhs Nineteen Thousand Fifty Three Only) as on 18.07.2021
2	1) Mr. Lakhvir Singh (Borrower) Since Deceased Represented by his Legal heirs Mrs. Daljit Kaur, W/o. Late Mr. Lakhvir Singh, 2) Mrs. Daljit Kaur (Guarantor)	& 45859430000469 Loan Amount: Rs.7,61,176/-& 16,37,050/-	MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY: Schedule Property: All that piece and parcel of the Immovable property bearing House admeasuring 700 sq. Yards (I Kanal 3 Marla), Khata No.898/1064, Khasra No. 499, Village Chakk Kalan, Mulapur, Ludhiana Owned by Mrs. Daljeet Kaur w/o Mr. Late Lakhvir Singh. Bounded as: North: Jagjeet Singh 120'+ 20'-8"+145'-5, South: Ravinder Singh 130'-0"+ 38'-5", East: Balbeer Singh 49'-6", West: Road 18'.	01.02.2021 Demand Notice Date: 25.06.2021	Rs.24,59,239/- (Rupees Twenty Four Lakhs Fifty Nine Thousand Two Hundred Thirty Nine Only) as on 24.06.2021

n column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/ prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.

Date: 27.08.2021, Place: Ludiana Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited बिनहाल : जम्मू, २७ अगस्त (भाषा)।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के सदस्यों ने 26 अगस्त को यहां आयोजित प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस बर्बरता और संगठन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को जम्मू क्षेत्र में प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के कारण जम्मू शहर और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हुआ। संगठन के सैकड़ों सदस्य

शुक्रवार को जम्मू शहर में जमा हो गए और रामबन थाने के प्रभारी को निलंबित करने और पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और पिटाई की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और धरने पर बैठ गए जिससे शहर में दो घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा। इसके बाद पुलिस ने उनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया और धरना स्थल को खाली करा लिया।

पुलिस अधीक्षक, शहर मोहिता

टीकों की 93

लाख से अधिक

खुराक दीं, एक

दिन में सर्वाधिक

भारत में शुक्रवार को कोविड-19

रोधी टीकों की 93 लाख से अधिक

खुराक दी गईं जो अब तक किसी

बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय

ने कहा कि शाम सात बजे संकलित

अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार एक

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में देश में

कोविड-19 टीकाकरण का दायरा

62 करोड (62,09,43,580)

खुराक को पार कर गया है। दिन

भर की अंतिम रिपोर्ट देर रात तक

मांडविया ने एक ट्वीट में कहा,

नागरिकों को बधाई क्योंकि भारत में

आज ऐतिहासिक 90 लाख कोविड

टीके लगाए गए – और अभी गिनती

जारी है। देश भर में 17 अगस्त को

टीकों की 88 लाख से अधिक

टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण

की शुरुआत के बाद से अब तक

18-44 वर्ष के आयु वर्ग के कुल

23,72,15,353 लोगों को पहली

खुराक दी गई है वहीं

2,45,60,807 लोगों को दूसरी

कुंभ में फर्जी जांच

घोटाले में दो

अधिकारी निलंबित

हरिद्वार कुंभ के फर्जी कोविड

जांच घोटाले में राज्य सरकार ने

कुंभ मेला स्वास्थ विभाग के दो

अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से

निलंबित कर दिया है। राज्य

सरकार द्वारा गठित जांच समिति

की रिपोर्ट आने के बाद यह कदम

इस मामले में जांच समिति की

रिपोर्ट के बाद कुंभ मेला के मुख्य

स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सिंह

सेंगर और नोडल अधिकारी एके

त्यागी को निलंबित किया है। अब

जल्दी ही निलंबित दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा

सकती है। दोनों अधिकारियों पर

कोरोना जांच करने वाले पैथोलॉजी

संस्थानों के साथ गठजोड कर

फर्जीवाड़े के जरिए राज्य सरकार

को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का

कुंभ कोरोना जांच घोटाले में

निलंबित दोनों अधिकारियों पर

अब गिरफ्तारी की तलवार लटक

रही है। फर्जी कोरोना जांच मामले

में हरिद्वार के जिलाधिकारी की

संस्तुति के बाद इन दोनों

अधिकारियों को राज्य सरकार ने

इस मामले में उत्तराखंड के

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार

ने आदेश दिया कि अगर दोनों ही

आरोपी अधिकारियों के खिलाफ

जांच में आपराधिक मामला सामने

आता है, तो उनकी तत्काल

गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की

जाएगी। कुमार ने साफ कहा कि

इस पूरे फर्जीवाड़े में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस स्तर से

पूरी जांच पड़ताल निष्पक्ष तरीके

से अमल में लाई जा रही है।

निलंबित कर दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार

खुराक दी गई थीं।

खुराक दी गई है।

जनसत्ता संवाददाता

देहरादून २७ अगस्त।

उठाया गया।

आरोप है।

इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख

तैयार होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक

एक दिन की सर्वाधिक संख्या है।

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

पबजी खेलने के लिए दस लाख खर्च करने के बाद किशोर फरार

ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से कथित तौर पर दस लाख रुपए खर्च करने की खातिर अभिभावकों के डांटने पर जोगेश्वरी इलाके में नाबालिग अपने घर से भाग गया। यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस ने दी।

एक अधिकारी ने बताया कि

अधिकारी ने बताया कि घटना बुधवार की शाम को प्रकाश में आया जब लड़के के पिता ने एमआईडीसी थाने में उसके लापता होने की शिकायत

ऑनलाइन गेम खेलने के लिए दस लाख रुपए खर्च करने पर अभिभावकों ने बेटे को डाटा था। इस के बाद नाबालिग पत्र लिख कर अपने घर से भाग गया।

का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान लडके के पिता ने पुलिस को बताया कि किशोर पिछले महीने से पबजी का आदी हो गया था और मोबाइल फोन पर खेलते हुए उसने अपनी मां के बैंक खाते से दस लाख रुपए खर्च कर दिए।

अधिकारी ने बताया कि जब अभिभावकों को ऑनलाइन लेनदेन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे डांटा जिसके बाद उसने एक पत्र लिखा और घर छोड़कर चला गया।

मुंबई, 27 अगस्त (भाषा)।

पबजी खेलने के लिए

पुलिस ने भागे हुए किशोर का पता बहस्पतिवार की दोपहर को अंधेरी (पूर्व) में महाकाली केव्स इलाके में लगाया और उसे उसके माता-पिता के पास भेज दिया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को 'भारत बंद' का आह्वान किया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 27 अगस्त।

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुआई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 25 सितंबर

को 'भारत बंद' का आह्वान किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की। एसकेएम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को और अधिक मजबती और विस्तार देना है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), शाहजहाँपुर

संशोधित अल्पकालीन ई-निविदा सूचना पत्रांक- 2361/डूडा/ई-निविदा/2021-22 दिनांक- 27/08/2021 इस कार्यालय के पत्रांक-1679/डूडा/ई-निविदा/2021-22 दिनॉक-24.07.2021, पत्रांक-1973/डूडा/ई-निविदा 2021-22 दिनॉक-06.08.2021 एवं पत्रांक-2196/डूडा/ई-निविदा/2021-22 दिनॉक-14.08.2021 के द्वारा जनपद शाहजहाँपुर में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा कार्य हेतु जारी की गई अल्पकालीन ई-निविदाओं की अन्तिम तिथि दिनांक-31.08.2021 तक थी। परन्तु तकनीकी समस्या उत्पन्न होने के कारण निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुये अब उक्त निविदायें दिनाँक- 07.09.2021 तक अपलोड की जा सकती है। आमंत्रित निविदायें दिनॉक-08.09.2021 को प्रातः-11:00 बजे परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), शाहजहाँपुर के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदाओं से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं वेबसाइट www.etender.up. nic.in पर

देखी जा सकती है। परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), शाहजहाँपुर

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय जन जिल्हा यमुना नगर – 135001, हरियाणा कॉरपोरेट कार्यालय : 2 पार्क लेन, किशनगढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली — 110070



दूरभाष : + 91-11-26893331 वेबसाइट : www.jaispring.com सीआईएन : L35911HR1965PLC004485

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 55वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 (दिनांक 8 अप्रैल, 2020), 17 / 2020 (दिनांक 13 अप्रैल, 2020), 20 / 2020 (दिनांक 5 मई, 2020), 22 / 2020 (दिनांक 15 जून, 2020), तथा 02 / 2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनेयम") तथा भारतीय पतिभाति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सेबी / एचओ / सीएफओ / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021 एवं उनके तहत निर्मित प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजयल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों को करने के लिए बुधवार, 22 सितबंर, 2021 को दोपहर 2:30 बजे आयोजित की

एजीएम नोटिस और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2020—2021 (31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास भेजी जाएंगी जिनकी ई—मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ दिनांक 20 अगस्त, 2021 को पंजीकृत हैं। एजीएम नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021 कम्पनी की वेबसाइट www.jaispring.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगी। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के पास एजीएम नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता को एमसीए द्वारा समाप्त कर दिया है और इसलिए कोई भौतिक प्रति प्रदान नहीं की जाएगी

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों द्वारा वोट (ई–वोटिंग) डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की ई—वोटिंग प्रणाली पर उपलब्ध कराई है और इसके लिए विस्तृत प्रकिया एजीएम नोटिस में प्रदान की गई है।

जिन सदस्यों के पास फिजिकल शेयर हैं और उनके ई–मेल आईडी कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वो सदस्य अपना नाम एवं पता,पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान कार्ड, पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के माध्यम र स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, डी—153 / ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस 1, नई दिल्ली — 110020, ई—मेल आईडी grievances@skylinerta.com य admin@skylinerta.com तथा / अथवा parveen@skylinerta.com फोन नंवर +91—11—40450193—97 पर भेजकर अपना ई—मेल पता पंजीकृत कराने का निवेदन कर सकते है डीमैट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना ई—मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार से ईमेल / मोबाइल नंबर / बैंक मैंडेट / एनईसीएस विवरण, यदि कोई हो, परिवर्तन को पंजीकृत / अपडेट करायें

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

तिथि : 28 अगस्त. 2021 स्थान : नई दिल्ली

प्रवीण लखेरा कम्पनी सचिव और विधि प्रमुख लेनदारों की समिति द्वारा एसोसिएटेड लाइटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (एएलएसपीएल) कॉर्पोरेट देनदार के सीआईआरपी में स्वीकृत संकल्प योजना के लिए सार्वजनिक घोषणा

"जनता के ध्यानार्थ हेत"

एतदवारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने आदेश दिनांक 18.08.2021 (आदेश दिनांक 18.08.2021 की प्रति माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पर 26.08.2021 को अपलोड किया गया था) द्वारा नोटिस जारी किया गया था। संकल्प योजना के अनुमोदन की मांग करने वाले आवेदन और संकल्प पेशेवर को प्रकाशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

सीओसी द्वारा अनुमोदित ष्एएलएसपीएलध् के दिवाला समाधान के लिए श्री अर्जुन नाथ द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर आपत्ति करने वाले किसी भी पक्ष को, प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस माननीय न्यायाधिकरण के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा

> समाधान प्रोफेशनल, एसोसिएटेड लाइटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मामले मे रजि. नंबर: IBBI/IPA-002/IP-N00001/2016-17/10001

पताः एटीएस ग्रीन्स पैराडिसो, फलैट नं. 02054, टॉवर — 2, प्लॉट नं. जीएच–03, सैक्टर – सीएचआई-04, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.-201308, देनांक : 27.08.2021 स्थानः नई दिल्ली ई—मेल : cirp.alspl@gmail.com; dev_singh2006@yahoo.com

हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 09 कम्युनिटी सेन्टर, यसंत लोक, वसंत विहार नई दिल्ली-1 1005 7. फोन : 011 49267000, CIN: U65192DL2016PLC30148

मांग सूचना प्रतिभृति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, २००२ ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण

एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अधीन जैसा कि हीरो हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वार अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों क प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानुनी वारिसों/ कानुनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सचना में निर्दिष्ट राशि का भगतान करने की अपील करते हा अधिनियम की धारा 13(2) के अधिन विस्तृत मांग सचना दिनांक जारी किए गए थे। कथित सचना की प्रतिय पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अघोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित ब्राध्यताधारी / कानूनी वारिस / कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है, उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों / विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और /या वसूली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों वे समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियाँ से 60 दिन के अंदर एचएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भूगतान की सुरक्षा के रूप में एचएचएफएल वे

की तिथि तक कुल बकाया कानूनी वारिसों/कानूनी खाता क्रं. देय (रु.)* प्रतिनिधियों के नाम एनपीए की तिथि HHFLUCLAP20000007874 ₹ 777193/- & 19-08-2021 ₹ 718384/-त्रिभुवन प्रसाद पाण्डे 08-07-2021 HHFLUCHOU20000007299 12-08-2021 तक

सरक्षित आस्तियों /अचल संपत्तियों /गिरवी संपत्तियो का विवरण : प्लाट नं. 9, खसरा नं. 689 मंडियावन, परगना मोहना, तेहसील बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 (क्षेत्रफल 48.791 वर्गमीटर अर्थात 525 वर्गफीट). चर्तुःसीमा : उत्तर : प्लाट नं. 10, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण प्लाट नं. 9 का भाग, पश्चिम : 20 फीट चीडी सडक

"संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रूप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और / य वसुली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी एचएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो एचएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रूप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानुनी वारिसों/कानुनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी /कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युत मुरक्षित आस्तियों / अचल संपत्तियों को बिक्री, पटटा या अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरित करने के लिए कथित धिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं । अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंधन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम 'के अंतर्गत यथा विहित सजा और / या दंड का पात्र होगा। तर्फे हीरो हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड दिनांक : 28.08.2021

स्थान : लखनक

CMI LIMITED CIN L74899DL1967PLC018031 Regd. Office: PD II, Jhilmil Metro Station, Jhilmil Industrial Area

Delhi - 110 095 Ph.: 0129-4876177 Website: www.cmilimited.in Email: info@cmilimited.in NOTICE

 NOTICE is hereby given that 54th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 30th September, 2021 through Video Conference ("VC") /Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, (the 'Act') MCA circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, to transact the business as set out in the Notice of the meeting.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Annual Report for Financial Year 2020-21 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. Manner of registering/updating email addresses:

Shareholders holding share(s) in dematerialized form are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.

Shareholders holding share(s) in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited

 The Notice of 54th AGM and Annual Report for FY2020-21 will also be made available on the Company's website at www.cmilimited.in and website of the stock exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 54th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of 54th AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the

For CMI Limited Subodh Kumar Barnwal

हस्ता.- प्राधिकृत अधिकारी

Date: 27.08.2021 Place: New Delhi Company Secretary

M No. 21928

Can Fin Homes Ltd

ह. ∕ -

DOUGHT CAMARA BANK

केन फिन होम्स लिमिटेड

quorum under section 103 of the Act.

CIN: L85110KA1987PLC008699 केनरा बैंक के क्रपर, प्रथम तल, प्लॉट नं सी-3, सैक्टर-1, नोएडा पिनकोड-201301 ई-मेल : noida@canfinhomes.com, फोन: 0120-2970164/65/67 मोबाइल: 7625079126

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत् बिक्री सूचना वेत्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत

अचल आस्तियों की बिक्री हेत् बिक्री सूचना तदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, नोएडा शाखा** के प्राधिकत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, की तरफ से दिनांक 21.09.2021 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर डिमांड नोटिस की संबंधित तारीखों के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटरों से कैन फिन होम्स लिमिटेड के ब्याज और अन्य शुल्क जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, वसुलने के

क्र. सं.	उधारकर्ताओं और गारंटरों का नाम	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार देय राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का विवरण
1.	श्री दिनेश कुमार, श्रीमती सुंदरवर्ती और श्री अखिलेश (उधारकर्ता) और जय सिंह (गारंटर)	08/06/2017	रु. 8,20,967 / — (रुपये आठ लाख बीस हजार नी सी सड़सठ मात्र)	रु. 8,00,000 / — (रुपये आठ लाख मात्र)	रु. 80,000 / — (अरसी हजार रुपये मात्र)	भौतिक	(फ्लैट नंबर 182-जी, ब्लॉक-सेक्टर-ओमीक्रोन-01 ग्रेटर नोएडा -201308 में निवास) पूर्व- साइट योजना के अनुसार पश्चिम- साइट योजना के अनुसार उत्तर- साइट योजना के अनुसार दक्षिण- साइट योजना के अनुसार
2.	वरिंदर कुमार खन्ना और प्रिया खन्ना (उधारकर्ता) और सुनील कुमार (गारंटर)	08/07/2019	रु. 16,49,460 / — (रुपये सोलह लाख उनचास हजार चार सी साठ मात्र)	रु. 19,55,000 / — (रुपये उन्नीस लाख पचपन हजार मात्र)	रु.1,95,500 / — (रुपये एक लाख पिचानवे हजार पांच सौ मात्र)		(प्लाट नं. बी–58, फ्लैट नं. एफ–2, प्रथम तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201005 में निवास) पूर्व – सड़क पश्चिम – सर्विस लेन उत्तर – प्लॉट नंबर बी –59 दक्षिण – प्लॉट नंबर बी –57



बैंक बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

अंचल कार्यालयः बी–1/122, प्रथम तल, विनीत खंड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 दुरमाष: 0522-4937684, ई-मेल: zo.lucknow@ucobank.co.in

Chandigarh

(चल एवं अचल सम्पत्तियों के लिए बिक्री सूचना, परिशिष्ट - IV - ए [नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान को देखें])

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संपठित प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) एवं नियम 9 के अन्तर्गत चल एवं अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए ई-नीलामी बिकी सूचना।

एतदद्वारा जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता के विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चल एवं अचल सम्पत्ति / बंधक / प्रभार मुक्त सम्पत्ति को, जिसे **युको बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो है जहाँ है एवं जो कुछ भी है के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी / जमानतकर्ता / प्रतिभृति आस्ति / देय / आरक्षित मृल्य / ई—नीलामी का तिथि एवं समय, धरोहर राशि (EMD) एवं बिंड बढोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है।

Б. Я.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बकाया धनराशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / विड बढोत्तरी राशि	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	डिमांड नोटिस कब्जा नोटिस
20.	मेसर्स सत्यम ट्रेडर्स प्रो. विनोद कुमार यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी हाजीपुर परशादेपुर लखनऊ जमानतकर्ताः श्रीमती सरिता यादव निवासी हाजीपुर परशादेपुर लखनऊ शाखा– छत्तोह	%. 4.91 लाख + ब्याज	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड, श्री विनोद कुमार यादव पुत्र स्वामी दयाल के नाम स्थित प्लॉट सं. 1118 ग्राम व मौजा परसादेपुर रायबरेली, चौहद्दीः पूर्वः नूर मोहम्मद का प्लॉट, पश्चिमः मुकिर का बचा प्लॉट, उत्तरः सड़क, परसादेपुर सं रायबरेली, दक्षिणः विक्रेता का बचा प्लॉट	vioo tii d	13.09.2021 दोपहरः 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	16.03.2018 06.09.2018

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड के लिए सुशील सूरी

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट का अवलोकन करे – https://www.ucobank.co.in, https://ibapi.in. इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नं.: 8840677108, 9452509075, 7007501696, एवं ई—मेल: zolucknow.rec@ucobank.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, लखनऊ अंचल कार्यालय दिनांक : 28.08.2021 स्थानः लखनऊ

www.readwhere.com

शर्मा ने कहा कि हमने उन्हें एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया। इसे प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने यातायात

को बाधित कर दिया है। गुरुवार की रात अभाविप के कार्यकर्ताओं ने उच्च माध्यमिक विद्यालय और जिला अस्पताल के निर्माण के

लिए दी गई जमीन पर आक्सीजन संयंत्र लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। पूर्व विधायक नीलम कुमार लेंगा सहित रामबन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया था। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि रामबन पुलिस

ने गुरुवार रात उनके एक कार्यकर्ता की पिटाई की और संगठन के जिलाध्यक्ष तरुण देव सिंह सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। अभाविप (जम्म्) के महासचिव मकेश मन्हास ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए दावा किया कि गुरुवार की रात 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण

फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रुज (ई) मुंबई —400098,

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

1. डिमांड नोटिस की तारीख

2. बकाया देय राशि

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) से अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर ऋण (सुविधाएँ) प्राप्त की थीं। आपकी चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया और बाद में, बीएचएफएल ने असाइनमेंट डीड दिनांक 26.12.2019 द्वारा बाद के डीड को उक्त ऋण सविधा(ओं) का लाभ उठाने के लिए आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के अनसार इसके सभी अधिकार. शीर्षक, हित, लाभ, बकाया राशि, इसके पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूतियों के संबंध में बनाए गए अंतर्निहित सुरक्षा ब्याज के साथ लिमिटेड (फिनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 20—6) के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, के पक्ष में सौंपा। फिनिक्स ने उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में और बकाया देय राशि की वसूली के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। जिनमें से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ३(१) के साथ पिटत अधिनियम की धारा १३(२) के अनुसार आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों. प्रतिभतियों, बकाया देय राशि. धारा 13(2) के तहत भेजे गए माँग सचना और उसके तहत दावा की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

कुमार सूरी के सह-उधारकर्ता और कानुनी उत्तराधिकारी) यहाँ पर मकान नंबर,— 672 एल.आई.जी सेक्टर — 8, आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा, मकान नंबर, — 6/2 एल.आइ.आ तपुटर — ७, आजारा प्रयास प्राप्त मिल, द माटर) पाल तपारा परा पर पर पुत्र हो। सारा, अग्रारा परा पर पुत्र हो। सारा, उ.प्र.— 282007. इसके अलावाः एलैट नंबर 204, दूसरी मंजिल, द सिग्नेचर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सिग्नेचर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 3 ए में स्थित, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा,

णी का नाम और पता, सह–ऋणी,

ऋण खाता संख्या, ऋण राशि

ऋण खाता संख्याः 4610HL47264627 और 461PFH47265816

सुश्री प्रज्ञा चतुर्वेदी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार सूरी (स्वर्गीय श्री प्रदीप 133.96 वर्ग मीटर, सूपर एरिया मापने 133.96 कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर ३, सेक्टर ३ए, पंडित दीन दयाल उपाध्याय परम आवास विकास कॉलोनी. सिकंदरा, आगरा— 282007 में स्थित है। **गिरवीकर्ता का नामः** स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार स्वीकत ऋण राशिः रु. 44.65.000 / — (रूपये चवालीस लाख पैंसठ हजार

प्रतिभृतियों का विवरण

दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 204 (सुपर एरिया

वर्ग मीटर, अविभाजित प्लॉट एरिया 51.29 वर्ग 2) रु. 47,09,898 / – (रूपये मीटर) वाले संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल, सिंतालिस लाख नौ हजार आठ सौ अठठानवें रुपये मात्र) देय और 16.08.2021 तक और 17.08.2021 से लागू आगे का ब्याज, लागत और शुल्क के साथ जब तक कि पूर्ण

अतः आप उधारकर्ता / ओं और सह–उधारकर्ताओं से इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित मांग राशि का और अग्रिम ब्याज के साथ भूगतान करने के लिए कहा जाता है, इसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी इसके अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभूतियों के उपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप पूर्वोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्ति को छुड़वाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभृतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है। प्राधिकत अधिकारी: फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्थानः आगरा, दिनांकः 28.08.2021

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड CIN: L24231HP1984PLC006028 पंजीकृत कार्यालय : मोरपेन विलेज, नालागढ़ रोड, निकट बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173 205

वेबसाइट : www.morepen.com, ई-मेल : investors@morepen.com शेयरधारकों को 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग का नोटिस

फोन: +91-1795-266401-03, 23712025, फैक्स: +91-1795-244591

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक और ई—वोटिंग के सम्बन्ध में सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिन मंगलवार, दिनांक 28 सितंबर, 2021 को सुबह 11 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स ('वीसी' / 'ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाघ्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुबंध में व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश क्रमशः परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसरण में तथा सेवी सर्कूलर दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में नेशनल डिपोंजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा वीसी/ओएवीएम की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे वार्षिक आम बैठक की 36वीं सूचना के अनुसार संचालित किया जाएगा।

इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित लागू प्रावधानों और परिपन्नों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ-साथ 36वें एजीएम की सूचना, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए, बोर्ड रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। 36वें एजीएम की नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए और सेबी परिपत्रों द्वारा हटा दिया गया है। सदस्य नोट कर सकते हैं कि एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.morepen.com, व स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा इसकी एक प्रति एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध की जाएगी।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार और सेबी के विनियम 42 (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सदस्यों के रजिस्टर व स्थानांतरण पुस्तकें बुधवार, 22 सितंबर, 2021 से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। सभी सदस्य जो एजीएम को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेंगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम में शामिल होंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश 36वें एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा की अवधि शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को सुबह 9 बजे (IST) से शुरू होगी और सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा को उक्त तिथि और समय से परे नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों / लाभार्थियों के रिजस्टर में दिखाई देता है, यानी 21 सितंबर, 2021 तक, ही केवल दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, अथवा एजीएम में मतदान कर सकेगा। एजीएम के दौरान मतदान का तरीका एजीएम के नोटिस में दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से वोट डाल दिया होगा, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 36वें एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

यदि आपकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई—मेल पते पर भेजे जाएगें।

ई-मेल पते दर्ज करने / अपडेट करने का तरीकाः

यदि आपने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और / या अपडेट नहीं किया है, तो कृपया 3 सितंम्बर, 2021 को या उससे पहले अपने ईमेल आईडी पते के पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें और ई-मतदान के लिए लॉगिन विवरण व वार्षिक रिपोंट की कॉपी प्राप्त करें:

डीमैट होल्डर

दिनांकः २७ अगस्त, २०२१

स्थानः नई दिल्ली

भौतिक धारक

कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मास सर्विसेज लिमिटेड, टी -34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली 110020 या उनके ई-मेल पते <u>info@masserv.com</u> पर अपने नाम व फोलियो नम्बर के साथ अपनी सूचना दें। कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाहित प्रक्रिया

के अनुसार अपने ई-मेल पते को अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोटस को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम भाग लेने के लिए निर्देश व रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के बारे में भी पढ़े।

यदि आपके पास वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in/ 1800-222-990 पर या हमारे रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट से info@masserv.com / 011-26287281 / 82 / 83 पर संपर्क कर सकते हैं और ई-वोटिंग सिस्टम से या ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़ी कोई शिकायत इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकते हैं और किसी समस्या के लिए दीपांश् रस्तोगी, सहायक प्रबंधक, मास सर्विसेज लिमिटेड से info@masserv.com/ 011-26287281 / 82 / 83 पर या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com 1800—222—990 पर सम्पर्क कर सकते हैं वैकल्पिक रूप से, सदस्यों से अनुरोध है कि एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पे जाकर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को पढ़ सकते हैं।

> (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) डीनः 00012028